

प्रतिभूति बाज़ार स्तर १

निवेशक के दृष्टिकोण से उन्हें समझना





NSE

IPFT

पैसे को समझना

मिलिए राज से।

राज एक युवा पेशेवर है जिसके कई सपने हैं।

उसने अभी-अभी काम करना शुरू किया है और वह जानना चाहता है कि अपने वित्त को कैसे प्रबंधित किया जाए।

राज के पिता हमेशा कहते थे, "पैसा पेड़ों पर नहीं उगता", और इसी से राज को कमाने और बचत करने का महत्व समझ में आया।

पैसे का आपके लिए क्या मतलब है?

पैसा विनिमय का माध्यम है।

पैसा क्यों महत्वपूर्ण है?

- ☐ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक
- ☐ अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, छुट्टियां मनाना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, आरामदायक रिटायरमेंट आदि।



आय, बचत और निवेश

- आय: काम या निवेश से होने वाली कमाई।
- बचत: भविष्य के खर्चों के लिए आय का वह हिस्सा जो बैंक खाते में अलग रखा जाता है।
- निवेश: वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसे को ऐसे परिसंपत्तियों में लगाना, जिनसे संभावित वृद्धि हो सके।

लेकिन, अगर बचत और निवेश दोनों का मतलब भविष्य के लिए पैसा अलग रखना है, तो इनमें अंतर क्या है?

	बचत	निवेश
फायदे	- किराने का सामान जैसे अल्पकालिक खर्च पूरे करने में मदद करता है	- बचत से अधिक रिटर्न कमा सकते हैं
	- नया फोन खरीदने जैसे लक्ष्यों को पूरा करना	- दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है
	- छुट्टियों पर जाना	- विविधीकरण के कई विकल्प, जिससे जोखिम कम होता है
		- महंगाई को मात देने वाले रिटर्न पैदा कर सकता है
नुकसान	- अन्य विकल्पों की तुलना में बहुत कम रिटर्न	- नुकसान का जोखिम, खासकर अल्पकाल में
	- महंगाई को मात देने में मदद नहीं करता	

चित्रण: बचत बनाम निवेश



VS



अगर आप हर महीने ₹५०० बचाएं और निवेश करें तो क्या होगा?
५, १० और १५ वर्षों में यह कितना बढ़ सकता है?

अवधि	२.५% पर बचत	१२% पर निवेश
५ वर्ष	₹ ३१,९८७	₹ ४१,२४३.१८
१० वर्ष	₹ ६८,२२८	₹ १,१६,१६९.५४
१५ वर्ष	₹ १,०९,२८९	₹ ४,९९,५७३.९६

क्या आप सोते समय पैसा कमा सकते हैं?

YES!

प्रिया (२७) ने ९ से ५ की नौकरी की और मासिक वेतन कमाया।
लेकिन उन्होंने सोते समय भी पैसा कमाया, अपने किराये की संपत्ति और निवेशों के माध्यम से।

अब वह ४७ साल की हैं, जल्दी रिटायर हो चुकी हैं और दुनिया घूमती हैं, जबकि वह अपने निवेशों और किराये की आय से कमाई जारी रखती हैं।

आय अर्जित की जा सकती है:

1. सक्रिय रूप से – सीधे काम के माध्यम से (जैसे वेतन) (सक्रिय आय)
2. निष्क्रिय रूप से – निवेश, किराया, डिविडेंड आदि के माध्यम से (निष्क्रिय आय)

आय वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता का निर्माण करती है।



निष्क्रिय आय क्यों महत्वपूर्ण है?

- आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक
- राजस्व की एक स्थिर धारा प्रदान करता है

कई आय स्रोत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदान करता है:

वित्तीय सुरक्षा

अपने जुनून को पूरा करने या जल्दी सेवानिवृत्ति लेने की बढ़ी हुई वित्तीय स्वतंत्रता

वित्तीय तनाव में कमी

आपके सेवानिवृत्ति जीवनशैली का समर्थन

निष्क्रिय आय केवल एक वित्तीय रणनीति नहीं है; यह अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक रास्ता है।



क्या आप जानते हैं? समय के साथ पैसों की कीमत घटती है...

राज के दादा-दादी ने १९७० के दशक में ₹५०,००० में एक घर खरीदा था।
आज वही घर खरीदने में ₹५.५ करोड़ का खर्च आता है!

१९८० में १ लीटर दूध की कीमत ₹३ थी और आज ₹६० है।


मुद्रास्फीति का मतलब है समय के साथ कीमतों में सामान्य बढ़ोतरी, जो क्रय शक्ति को कम कर देती है।

यह हमारी बचत को भी प्रभावित कर सकती है।


अगर मुद्रास्फीति ७% है, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट आपको सिर्फ ३% ब्याज देता है,
तो क्या आपका पैसा उन चीज़ों की कीमतों के हिसाब से बढ़ रहा है जिन्हें आप खरीदते हैं?



रोज़मर्रा का खर्च (₹)



पैसे का मूल्य (₹)



मुद्रास्फीति के कारण जीवन-यापन की लागत हर साल बढ़ती है। इसी प्रभाव के कारण पैसे का मूल्य घट जाता है।

मुद्रास्फीति ६% प्रति वर्ष मानी गई है।

कुछ निवेश उत्पादों की तुलना

उत्पाद	तरलता (Liquidity)	जोखिम (Risk)	स्टिर्न (Returns)	प्रवेश/भंडारण लागत (Entry/Storage Costs)
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट	उच्च (समय से पहले निकासी की अनुमति)	कम	मध्यम (निश्चित ब्याज दर)	कोई प्रवेश लागत नहीं, कोई भंडारण लागत नहीं
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट	मध्यम (सीमित समय पूर्व निकासी)	बहुत कम	कम से मध्यम (निश्चित ब्याज दर)	कोई प्रवेश लागत नहीं, कोई भंडारण लागत नहीं
सोना	मध्यम (रूप पर निर्भर, डिजिटल में अधिक तरलता)	मध्यम (बाज़ार में उतार-चढ़ाव)	मध्यम (बाज़ार से जुड़ा)	अधिक (भौतिक भंडारण के लिए), डिजिटल के लिए कम
रियल एस्टेट	कम (अतरल, बेचने में समय लगता है)	अधिक (बाज़ार और संपत्ति-विशिष्ट जोखिम)	संभावित रूप से अधिक (स्थान और बाज़ार पर निर्भर)	अधिक प्रवेश लागत, रखरखाव/भंडारण लागत
शेयर (इक्विटी)	उच्च (बाज़ार में जल्दी बेचा जा सकता है)	अधिक (बाज़ार में उतार-चढ़ाव)	संभावित रूप से अधिक (बाज़ार से जुड़ा)	कम से मध्यम (दलाली शुल्क)

इंडेक्स
(३० नवम्बर २०२४ तक)

कंपाउंड एनुअलाइज़्ड रिटर्न्स (%)

आपका पैसा कितनी बार बढ़ा

	१Y	३Y	५Y	१०Y	१५Y	२०Y	१Y	३Y	५Y	१०Y	१५Y	२०Y
इंडिया-इक्विटी (निफ्टी ५० टीआरआई)	२१.३	१३.८	१६.२	१२.२	१२.४	१४.८	१.२X	१.५X	२.१X	३.२X	५.७X	१५.८X
यूएस-इक्विटी (एस एंड पी ५०० टीआरआई इन आईएनआर)	३५.८	१५.९	१९.६	१६.९	१८.८	१४.३	१.४X	१.६X	२.५X	४.८X	१३.३X	१४.४X
गोल्ड (इन आईएनआर)	३२.०	१८.२	१६.४	११.८	९.९	१२.८	१.३X	१.७X	२.१X	३.१X	४.१X	११.१X
रियल एस्टेट	६.२	६.६	५.३	४.८	६.७	८.६	१.१X	१.२X	१.३X	१.६X	२.६X	५.२X
डेब्ट*	७.९	६.२	६.४	७.२	७.५	७.५	१.१X	१.२X	१.४X	२.०X	३.०X	४.२X

भारतीय इक्विटी ने पिछले २० वर्षों
में १५% रिटर्न दिए हैं।

भारतीय इक्विटी ने २० वर्षों में १६
गुना वृद्धि की है।

- अमित अपना सारा पैसा इक्विटी में निवेश करता है।
 - रोहित ६०% इक्विटी में और ४०% बैंक डिपॉजिट में निवेश करता है।
 - पिछले साल इक्विटी मार्केट ने १८% का रिटर्न दिया, जबकि बैंक डिपॉजिट ने ९% का रिटर्न दिया।
 - इस साल इक्विटी मार्केट घटकर सिर्फ १०% रिटर्न दे रहा है, जबकि बैंक डिपॉजिट अब भी ९% रिटर्न दे रहा है।
- यह बाज़ार में गिरावट इन दोनों निवेशकों को कैसे प्रभावित करती है?

पोर्टफोलियो रिटर्न = पोर्टफोलियो में निवेशों का भारित औसत रिटर्न

नीचे दी गई तालिका अमित और रोहित द्वारा अर्जित रिटर्न को दर्शाती है:

साल	अमित: १००% इक्विटी	रोहित: ६०% इक्विटी + ४०% बैंक डिपॉजिट
१	१८%	$(0.6 \times 18\% + 0.4 \times 9\%) = 14.4\%$
२	१०%	$(0.6 \times 10\% + 0.4 \times 9\%) = 9.6\%$

“

**चक्रवृद्धि ब्याज
दुनिया का आठवां
चमत्कार है।**


~ अल्बर्ट आइंस्टीन

चक्रवृद्धि क्या है?

पुनर्निवेशित कमाई पर रिटर्न कमाना, अर्थात आप अपने मूल धन पर ब्याज कमाते हैं और साथ ही संचित ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं।

साल	मूल्य
१	₹ १, १२, ६८२.५०
३	₹ १,४३,०७६.८८
५	₹ १,८१,६६९.६७
७	₹ २,३०,६७२.२७
१०	₹ ३,३०,०३८.६९
१५	₹ ५,९९,५८०.२०
२०	₹ १०,८९,२५५.३७

₹३०,००० प्रति माह निवेश करने पर पोर्टफोलियो का मूल्य (१२% वार्षिक रिटर्न पर)




थोड़ी सी राशि भी यदि जल्दी निवेश की जाए, तो लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकती है

- ₹१ लाख निवेशित (१२% वार्षिक रिटर्न मानते हुए)
- २० वर्ष की उम्र में किया गया निवेश, ६० वर्ष की उम्र तक १०० गुना बढ़कर ₹१ करोड़ हो जाता है।
- ३० वर्ष की उम्र में (१० साल की देरी से) किया गया निवेश, ६० वर्ष की उम्र तक ३० गुना बढ़कर ₹३० लाख हो जाता है।
- ४० वर्ष की उम्र में (२० साल की देरी से) किया गया निवेश, ६० वर्ष की उम्र तक १० गुना बढ़कर ₹१० लाख हो जाता है।

जब आप ६० वर्ष के होते हैं, तब आपका मूल एकमुश्त निवेश कितनी बार बढ़ जाता है (१२% वार्षिक रिटर्न पर)

वृद्धि गुणक (X)



सिस्टेमैटिक निवेश की ताकत

- अनुशासित और नियमित निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- बाज़ार में गिरावट के समय अधिक यूनिट्स खरीदें, बढ़त के समय कम।
- अलग-अलग बाज़ार स्तरों पर दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से जोखिम कम करता है।
- निवेश की औसत लागत को घटाता है।

साल	निवेशित राशि	मूल्य	राशि में अंतर
१	₹ ६०,०००.००	₹ ६४, ०४६.६४	₹ ४, ०४६.६४
३	₹ १,८०,०००.००	₹ २,१७ , ५३८. २४	₹ ३७ , ५३८. २४
५	₹ ३,००,०००.००	₹ ४, १२, ४३१.८३	₹ १, १२, ४३१.८३
७	₹ ४, २०,०००.००	₹ ६, ५९, ८९४.९९	₹ २, ३९,८९४.९९
१०	₹ ६,००,०००.००	₹ ११,६१,६९५.३८	₹ ५,६१,६९५. ३८
१५	₹ ९,००,०००.००	₹ २५,२२,८८०. ००	₹ १६,२२,८८०.००
२०	₹ १२,००,०००.००	₹ ४९,९५,७ ३९. ६०	₹ ३७ ,९५,७ ३९. ६०

QUIZ TIME

Q१

चक्रवृद्धि का मुख्य लाभ क्या है?

- A. यह निश्चित रिटर्न की गारंटी देता है।
- B. यह आपको आपके मूल निवेश और उस पर समय के साथ अर्जित ब्याज दोनों पर ब्याज कमाने की सुविधा देता है।
- C. यह सभी निवेश जोखिमों को समाप्त करता है।
- D. यह तत्काल नकदी उपलब्ध कराता है।

Q२

निवेश पोर्टफोलियो में विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A. अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करना।
- B. विभिन्न संपत्तियों में निवेश को फैलाकर जोखिम को कम करना।
- C. केवल एक उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र में निवेश केंद्रित करना।
- D. पूंजी लाभ (CAPITAL GAINS) पर कर से बचना।

Q३

निवेश में जोखिम-प्रतिफल संबंध का क्या अर्थ है?

- A. अधिक जोखिम आमतौर पर उच्च संभावित लाभ की ओर ले जाता है।
- B. कम जोखिम हमेशा उच्च रिटर्न की गारंटी देता है।
- C. जोखिम और प्रतिफल का आपस में कोई संबंध नहीं है।
- D. कम जोखिम उच्च लाभ देता है।

डबल रिटर्न के झांसे में आकर आपका डबल नुकसान हो सकता है। सुनो सिर्फ SEBI-registered advisors की, और भुगतान भी सिर्फ SEBI-verified UPI IDs पर करो।

CLICK TO
PLAY



NSE

Beware of "Double
Return" Scams!

#SEBIvsSCAM

नकली ऐप्स असली जैसे ही लगते हैं, और जोखिम भी असली ही होता है। SEBI की साइट पर सत्यापित ऐप्स की सूची देखें और केवल उन्हीं को डाउनलोड करें।

CLICK TO
PLAY



NSE

Beware of fake
trading apps!

#SEBIvsSCAM

CLICK TO
PLAY



NSE

**Beware of
Deepfakes!**

#SEBIvsSCAM

पहले पहचानो ठगों को, वरना वे पहचान लेंगे आपको!

- ऐसे रज़मर्रा के तरीकों को पहचानकर आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं।
- राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशक सुरक्षा के हित में जारी।



पहले पहचानो ठगों को, वरना वे पहचान लेंगे आपको!

1 विदेशी पोर्टफोलियो

ठग झूठे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जो यह दावा करते हैं कि वे रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से जुड़े हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म इस बहाने से निवेशकों को गुमराह करते हैं कि वे उन्हें FPI या विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के माध्यम से ट्रेडिंग के विशेष अवसर दे रहे हैं – जैसे उप-खाते या विशेष सुविधाओं वाले संस्थागत खाते।



2 फेक ट्रेडिंग ऐप्स

ठग बिना रेगुलेशन वाले ट्रेडिंग ऐप्स भेजते हैं जो असली जैसे दिखते हैं, ताकि निवेशक अपने खाता विवरण साझा कर दें। इन ऐप्स की 'APK' फाइलें सोशल मीडिया के जरिए भेजी जाती हैं और ये आधिकारिक स्रोतों पर उपलब्ध नहीं होतीं। **कभी भी अनजान फाइलें डाउनलोड न करें**, चाहे वह दोस्तों या आपके डिवाइस में सेव किसी संपर्क द्वारा भेजी गई हो।



3 सोशल/मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपंजीकृत निवेश सलाह

‘भेरे चैनल को फॉलो करें’ और **‘भेरे चैट ग्रुप में जुड़ें’** जैसी बातें सबसे बड़े लाल झंडे हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है! SEBI-पंजीकृत स्टॉकब्रोकर कभी भी टिप्स या किसी भी प्रकार की चैट ग्रुप सलाह नहीं देते। ऐसे निवेशकों की रसीदें या सलाह जिनका दावा है कि उन्होंने एक्सपर्ट सलाह पाकर मुनाफा कमाया – वे सभी झूठे और आपको फंसाने के लिए बनाए गए होते हैं।



पहले पहचानो ठगों को, वरना वे पहचान लेंगे आपको!

4 इन्फ्लुएंसर्स/लोकप्रिय हस्तियों के डीपफेक वीडियो

सेलिब्रिटी, सार्वजनिक हस्तियों, प्रोफेसर्स, चीफ एनालिस्ट्स, प्रतिष्ठित लोगों, सरकारी प्रतीकों और प्रसिद्ध संस्थाओं के चेहरों का उपयोग करके नकली वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि निवेशकों को उनकी सिफारिशों पर यकीन दिलाया जा सके। कभी भी अपुष्ट दावों और प्रोफाइल्स पर भरोसा न करें। AI के तेजी से बढ़ते दौर में, किसी भी चीज़ को उसके दिखावे पर न लें।

5 ओपिनियन ट्रेडिंग

ओपिनियन ट्रेडिंग घोटालों में निवेशकों को इस प्रकार गुमराह किया जाता है कि वे वास्तविक सिक्योरिटीज के बिना भी ट्रेडिंग का भ्रम पाले रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट की तरह दिखते हैं लेकिन SEBI के नियमों से बाहर होते हैं – जिससे निवेशकों को ज़्यादा जोखिम और कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती।

6 अच्छे डिजिटल अभ्यास

पंजीकृत स्टॉकब्रोकर कभी भी आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मांगते। अगर आप अपने अकाउंट की जानकारी किसी को देते हैं, तो वह सीधे आपके फंड्स तक पहुंच बना लेता है। इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है और रिकवरी की कोई संभावना नहीं बचती। अपने पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें और अपनी लॉगिन जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा न करें।



पहले पहचानो ठगों को, वरना वे पहचान लेंगे आपको!

7 गैरंटीशुदा रिटर्न वाला पेड ट्रेडिंग कोर्स

फ्री या पेड ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर दी जा रही स्टॉक टिप्स या निवेश सलाह के झांसे में न आएं। “पक्का मुनाफा होगा” जैसे वादों पर यकीन न करें — कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता। ठग अक्सर नकली सक्सेस स्टोरीज़ और चकाचौंध वाले विज्ञापनों से लोगों को फंसाते हैं। अगर कोई मुनाफा गारंटी देता है, तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है — दूर रहें! ये लोग खुद को SEBI-पंजीकृत ब्रोकर भी बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने भारी मुनाफा कमाया है। अगर वे आपके लिए ट्रेड करने का ऑफर देते हैं और कहते हैं — “गारंटीड”, “ $4X$ ”, “ $10X$ ”, या यहां तक कि “ $100X$ रिटर्न्स” — तो यह स्कैम है!

8 पंप एंड डंप स्कैम

हार्डप के झांसे में न आएं। यह एक धोखाधड़ी वाली मार्केट तकनीक है, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ठग पहले किसी स्टॉक को बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और फिर उसकी कीमत को फेक न्यूज या प्रचार से बढ़ाते हैं। जब कीमतें ऊपर जाती हैं, तो वे स्टॉक्स को बेच देते हैं, जिससे कीमतें क्रैश हो जाती हैं।

9 डब्बा ट्रेडिंग

डब्बा ट्रेडिंग एक अवैध तरीका है जिसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस तो दिखाए जाते हैं, लेकिन आपकी ट्रेड असल में स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम में दर्ज ही नहीं होती — सिर्फ ऑपरेटर की किताबों में दर्ज होती है। स्टॉक एक्सचेंज से बाहर अनरजिस्टर्ड माध्यमों से ट्रेड करना गैरकानूनी है। ऐसे लेन-देन पर न तो कोई मुआवज़ा मिलेगा और न ही कोई कानूनी सहायता। हमेशा SEBI-पंजीकृत माध्यमों के साथ ही ट्रेड करें।

आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

१ आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

- गारंटीड या फिक्स्ड रिटर्न के लालच में न आएं।
- सिक्योरिटी मार्केट में गारंटीड रिटर्न अवैध हैं। किसी भी ऑफर को उसके दिखावे के आधार पर न स्वीकारें।
- अंजान स्रोतों से आए मैसेज से सावधान रहें।
- SEBI, NSE या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खबरों की पुष्टि करें।
- गैर-मान्यता प्राप्त ट्रेडिंग ऐप्स डाउनलोड न करें और न ही किसी चैट ग्रुप से निवेश सलाह लें।
- केवल SEBI रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज़ के साथ ही लेन-देन करें।
- डिटेल्स चेक करें: <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognised=yes>
- केवल SEBI पंजीकृत ट्रेडिंग ऐप्स को ही डाउनलोड करें (App Store या Google से)।
- जानकारी जांचें: <https://investor.sebi.gov.in/Investor-support.html>
- फंड ट्रांसफर केवल पंजीकृत क्लाइंट बैंक अकाउंट्स में ही करें।
- बैंक खातों की पुष्टि करें: https://enit.nseindia.com/MemDirWeb/form/tradingMemberLocator_beta.jsp
- १ अक्टूबर २०२५ से, SEBI ने Structured UPI फीचर लागू किया है जिसमें “thumbs-up” आइकन और SEBI चेक शामिल है — ताकि आप केवल रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज़ को ही भुगतान करें।
- उदाहरण: abc.brk@validbank
- किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें: www.cybercrime.gov.in या कॉल करें १९३०
- निवेशक सहायता के लिए कॉल करें: १८०० २६६ ००५०




NSE

IPFT

एक गलत UPI भुगतान आपकी बचत को खत्म कर सकता है। SEBI ने ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड और दूसरे इंटरमीडियरीज के लिए वैलिडेटेड UPI हैंडल और SEBI चेक फंक्शनैलिटी शुरू की है।



CLICK TO
PLAY



Whaling

Targeted attacks on C-suite executives and senior leadership to gain access to sensitive information



Ransomware

Malicious software that encrypts critical data, demanding payment for restoration of access



Account Takeover (ATO)

Cyber criminals / Hackers access employees financial accounts through weak passwords, social engineering, or system vulnerabilities.



Smishing & Vishing

SMS and voice call scams exploiting trust to extract sensitive information or credentials



Phishing Attacks

Deceptive emails designed to steal credentials, deploy malware, or trick employees into fraudulent transfers




Social Engineering

Attackers manipulate individuals into divulging confidential information or performing actions that compromise security, such as transferring funds or providing sensitive data.

F&O में ट्रेडिंग करते समय उचित सावधानी बरतें


Trading in financial contracts like derivatives requires expertise




Understand the risks and only then trade in derivatives



Similarly, trade in options only if you have relevant trading experience and high-risk tolerance



Different investment avenues carry varying levels of risk and expertise. Choose your strategy after careful deliberation



In case of any issues / concerns, contact your Stockbroker. If you are not satisfied or do not receive any response, contact the Exchange on ignse@nse.co.in or 1800 266 0050

सिक््योरिटीज मार्केट में AML & CFT दिशा-निर्देश

- SEBI ने इंटरमीडियरीज़ के लिए अनिवार्य किया है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (CFT) से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- निवेशक की ज़िम्मेदारियाँ और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।
- निवेशकों को क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस (CDD) प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, जिसमें पहचान सत्यापन, लाभकारी स्वामित्व की जानकारी देना, और अपनी व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारी को समय-समय पर अपडेट करना शामिल है।
- गुमनाम या फर्जी खातों से बचें। उच्च जोखिम वाले ग्राहक (जैसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति, NGO, विदेशी निवेशक) के लिए अधिक जांच और सतर्कता आवश्यक है।
- निवेशकों को जोखिमों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इंटरमीडियरीज़ के साथ ऑनबोर्डिंग और ट्रांजैक्शन के दौरान सहयोग करना चाहिए।
- निवेशकों को सटीक और पूर्ण KYC दस्तावेज़ प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं।
- लेन-देन की संदिग्ध गतिविधियों के लिए निगरानी की जाती है।
- STRs (Suspicious Transaction Reports) बिना निवेशक को सूचित किए भी दर्ज किए जा सकते हैं।
- SEBI निवेशक डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो AML/CFT ढांचे के अंतर्गत आती है।



ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म

- निवेशकों को अब ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रुमेंट्स तक आसान पहुंच मिल गई है।
 - निवेशकों को इन निवेश साधनों की विशेषताओं, जोखिमों और उनसे जुड़े खर्चों को समझना ज़रूरी है।
 - YTM (Yield to Maturity) कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता — यह बाज़ार के ब्याज दरों, तरलता की स्थिति, परिपक्वता अवधि, और जारीकर्ता की क्रेडिट योग्यता के आधार पर बदल सकता है।
 - कूपन रेट वह निश्चित वार्षिक ब्याज दर होती है जो जारीकर्ता द्वारा नियमित आय के रूप में दी जाती है।
 - यह भुगतान पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते और जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति और क्रेडिट विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं।
 - बॉन्ड की कीमतें और यील्ड के बीच उलटा संबंध होता है।
 - किसी भी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने से पहले, निवेशकों को कुछ अहम बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे: बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग, समय पर पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड, इंस्ट्रुमेंट की तरलता, सेटलमेंट टाइमलाइन, टैक्स से जुड़े प्रभाव
 - निवेशकों से सावधानी बरतने और बिना रजिस्टर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर लेन-देन करने से बचने का आग्रह किया जाता है। निवेशकों को लेन-देन करने से पहले OBPPs का रजिस्ट्रेशन स्टेटस वेरिफाई करना चाहिए, और अपने हितों की रक्षा के लिए केवल SEBI-रजिस्टर्ड संस्थाओं के साथ ही डील करनी चाहिए।
- SEBI वेबसाइट: <https://www.sebi.gov.in/online-bond-platform-providers.html>



यह भी सुनिश्चित करें कि आप जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं वह SEBI-पंजीकृत ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर (OBPP) है।

ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म

- निवेशकों की शिकायतों का समाधान सरल बनाने और सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए,
- कॉमन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स (CISC) देशभर में शुरू किए गए हैं। अपने नजदीकी CISC की जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएं:
- <https://www.nseindia.com/contact/investor-services-centre>

Common Investor Service Centres

A mission to empower every Indian in their investment journey

37 Common Investor Service Centers Pan India





भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange Board of India



National Institute of
Securities Markets
A Capacity Building Initiative of SEBI

SEBI- Investor Awareness Test

Available in Hindi and English languages

Exam Objectives:

- To create Investor awareness and education in securities markets
- To scale up securities market related knowledge among the investing public
- To develop right attitude/behavior when investing in the market



FREE
(Study Material and No Exam Fee)



SCAN FOR
REGISTRATION

+91 8080806476

certification@nism.ac.in

Saaṛṛṛhi App



UNLOCK THE **WEALTH** OF **KNOWLEDGE** WITH **Saaṛṛṛhi App**

-  User-friendly interface with comprehensive tools aimed at simplifying complex financial concepts.
-  Resources and Educational Videos designed to increase investor awareness.
-  Unbiased, Objective and Trusted Source of Investment Awareness
-  Reliable and essential insights into the securities market.
-  Vital for young investors, who are at the beginning of their financial journey
-  Access a range of Financial Tools and Calculators,
-  Do your Financial Health Check-up,

Empower yourself in the world of investing




SEBI | Investor Awareness -
Login and Registration

PARTNER WITH SEBI
Become a
SMART
(Securities Market Trainer)
conduct investor education programmes



सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

SCORES २.० – ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा मंच



निवेश के लिए तैयार हैं?

यहाँ कुछ कैलकुलेटर दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं:

 <https://investor.sebi.gov.in/calculators/index.html>

- SIP कैलकुलेटर
- गोल SIP कैलकुलेटर
- महंगाई (Inflation) कैलकुलेटर
- लम्पसम निवेश कैलकुलेटर
- रिटायरमेंट योजना कैलकुलेटर
- स्टेप-अप SIP कैलकुलेटर



INVESTOR AWARENESS SERIES



FATHER & SON SERIES



INVESTING DEMYSTIFIED SERIES



PODCAST – SHASHAKT NIVESHAK



PARSI CAFÉ SERIES



MONEY MINDED MALINI



हम इन प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं



NSE India



@nseindia



NSE India



@NSEIndia



NSE India

अपने पसंदीदा सोशल मीडिया चैनल पर हमें फॉलो करें
ताकि आप वित्तीय और पूंजी बाज़ार से जुड़ी महत्वपूर्ण
जानकारियों से जुड़े रहें।

पूंजी बाज़ार पर नियमित अपडेट पाने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।



NSE Investor Awareness Program



Soch kar

Samajh kar

Invest kar

